



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

No. 100]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2005/फाल्गुन 16, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2005/PHALGUNA 16, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2005

सं. 14/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 161(अ).—यतः, केन्द्र सरकार सन्तुष्ट है कि मोटर वाहनों के लिए, इंजन लगी हुई चेसिस, चाहे उस पर कैब फिट हो अथवा न हो, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के प्रभावी होने के बाद भी, शीर्ष सं. 8706 के लिए 27 फरवरी, 2005 तक प्रभावी शुल्क दरों पर वर्गीकरण एवं उद्ग्रहण किया जाये और उपर्युक्त संशोधन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के चेप्टर 58 में टैरिफ मद 58063200 के लिए शुल्क दर 27 फरवरी, 2005 तक लागू शुल्क दर के समान ही निर्धारित की जानी चाहिए और कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

2. अतः, अब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- I. प्रथम अनुसूची में (क) चेप्टर 58 में, कॉलम (4) में टैरिफ मद 58063200 के सामने "16%" प्रविष्टि शामिल की जायेगी (ख) चेप्टर 87 में, नोट 3 के लिए निम्नलिखित नोट प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"शीर्ष 8706 में चेसिस शामिल होगी, चाहे उस पर कैब फिट हो अथवा न हो"।

- II. द्वितीय अनुसूची में नोट 9 के क्लॉज (iv) में "शीर्ष 8706 की टैरिफ मदों में, चेसिस जिसमें इंजन फिट किए गए हैं, केवल निम्नलिखित सम्मिलित हैं—" शब्दों के लिए "शीर्ष 8706 में चेसिस शामिल होगी, चाहे उसमें कैब फिट हो अथवा न हो। शीर्ष 8706 की टैरिफ मदों में निम्नलिखित के लिए इंजन लगी हुई चेसिस शामिल है" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. 4/3/2002-सी एक्स-1]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2005

No. 14/2005-Central Excise

G.S.R. 161(E).—Whereas the Central Government is satisfied that chassis fitted with engines, for the motor vehicles, whether or not fitted with a cab, should be classified and levied to the rates of duty in force till 27th February, 2005 for heading No. 8706 even after the coming into effect of Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005) and the rate of duty for the Tariff Item 58063200 in Chapter 58 of the First Schedule to the aforesaid Amendment Act should be specified at the same rate as in force upto 27th February 2005 and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the Central Government, hereby makes the following amendments in the First Schedule and the Second Schedule to the said Central Excise Tariff Act, namely :—

I. In the First Schedule,

(a) In Chapter 58, in column (4), against tariff item 58063200, the entry “16%” shall be inserted.

(b) In Chapter 87, for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely :—

“Heading 8706 shall include chassis, whether or not fitted with a cab.”

II. In the Second Schedule, in NOTE 9 in clause (iv) for the words, “tariff items of heading 8706 includes chassis fitted with engines only for-”, the words “heading 8706 shall include chassis, whether or not fitted with a cab. Tariff items of heading 8706 include chassis fitted with engines for-” shall be substituted.

[No. 4/3/2002-CX-I]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.